

BIHAR SPONGE IRON LIMITED.

REGISTERED OFFICE & PLANT : UMESH NAGAR, CHANDIL-832401, DISTT. SARAIKELA - KHARSAWAN, JHARKHAND
PHONE (EPABX) : 06591-232410, 232417, Fax : 06591-232412
E-mail : bsilchandil@gmail.com / Web : bsil.org.in CIN : L27106JH1982PLC001633

BSIL/CS/SE/2019

16th August , 2019

To,
The Manager
BSE Limited
25th Floor, P.J.Towers,
Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 50058

Sub: Newspaper clippings of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30,2019.


Dear Sir/Mam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, Kindly find enclosed herewith the Newspaper Clippings of publication of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 published in Financial Express (English) and Naya India (Hindi) on 15th August, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

For **BIHAR SPONGE IRON LTD.**


HIMANI MITTAL
(COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER)



Encl: as above

KERALA STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
e-Tender Notice

E-Tender ID	Items	Bid submission end date
2019_KSRTC_285079	9.00 x 20 16 PR RADIAL TYRE, TUBES AND FLAPS	27.08.2019 06:00 PM
2019_KSRTC_285703	GENERAL THINNER	

For more details visit:
www.etenders.kerala.gov.in & www.keralartc.com/tenders/purchase
Ph.No.0471-2471011 Extn: 303
Date: 16.08.2019 (Sd/-) Chairman & Managing Director

HIRA AUTOMOBILES LIMITED
Regd. Office : # 598, Sector 18-B, Chandigarh | CIN- L50101CH1989PLC009500
Tel:0172-2743462 | Email : hiraaccounts@gmail.com | www.hiraautomobiles.com

Extract of Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019 (Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended			31.03.2019
	30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	
Total Income from Operations	6990.36	10789.65	7926.03	37099.37
Net Profit/(Loss) from tax, exceptional and extraordinary items	(5.05)	19.48	21.79	129.88
Net Profit/(Loss) for the period before tax after exceptional and extraordinary items	(5.05)	69.80	21.79	180.20
Net Profit after tax from ordinary activities	(5.05)	63.32	17.79	145.51
Total Comprehensive Income	-	-	-	-
Equity Share Capital	275.34	275.34	275.34	275.34
Other Equity	906.75	911.80	788.38	911.80
Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs 10/- each)	(0.18)	2.30	0.65	5.28
Diluted:	(0.18)	2.30	0.65	5.28

Note: The above is an extract of the detailed format of un-audited standalone financial results for the quarter ended 30th June, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of above Results is available on the websites of Company and BSE Limited at www.hiraautomobiles.com and www.bseindia.com.

For Hira Automobiles Ltd.
Rahulinder Singh Sidhu
Managing Director
DIN-0047452

Place : Chandigarh
Date : 14-08-2019

VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED
CIN: L74899HR1968PLC004895;
Registered Office:- 113/114-A, Sector-24, Faridabad - 121005, Haryana
Phone: +91 1294292200; Fax: +91 129 2232072
E-mail: voithfincs.faridabad@voith.com, Website: www.voithpaperfabricsindia.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given to all concerned that 854 (Eight Hundred Fifty Four) equity shares of the company, comprised in 27 Share Certificates have been reported lost/misplaced, by the shareholders as per below details:

Sr. No.	Folio No.	Name of Members	Certificate No.	Distinctive No. From	No. of Shares To	No. of shares
1.	S0001400	Rakha Sharma	3093	568426	568475	50
			11296	1079284	1079333	50
			23579-23580	2991207	2991266	60
			44661-46662	4228324	4228387	64
			2635	550876	550900	25
2.	S0001026	Sharda Tyagi	2461-63	546526	546600	75
			2635	550876	550900	25
			3542	590876	590925	50
			3544	590976	591025	50
			5948	808676	808625	50
			6527	767001	767050	50
			6708	478501	478550	50
			6726	477901	477950	50
			6731	478151	478200	50
			6849	778426	778450	25
			22906	2962174	2962193	20
			45575	4201666	4201675	10
			52011	590526	590575	50
			52012	590926	590975	50
			52013	555276	555300	25

The Company will decide to issue duplicate share certificate, in lieu thereof, if no objection is received within 7 days from the date of publication of this Notice.

for Voith Paper Fabrics India Limited
(C.S. Gugliani)
Company Secretary
Date : 16th August, 2019
FCS 4301

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED
CIN: L27196DL1989PLC021911
Regd. Office: 514/04/1/34 Chaudhary Market Gali Peti Wali, Sadar Bazar, New Delhi-110006
Email ID: niraj1989@gmail.com Website: www.nirajispat.in

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019 (In Lakhs)

Particulars	Quarter ended (30/06/2019)	previous year ended (31/03/2019)	3 months ended in the previous year (30/06/2018)
1. Total Income from Operations	158.07	644.12	179.48
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	27.82	84.71	33.81
3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.82	84.71	33.81
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20.59	65.55	25.36
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	20.59	65.55	25.36
6. Equity Share Capital	50.00	65.55	65.55
7. Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	(0.05)	1.00	0.39
a) Basic (in Rs.)	3.43	10.93	4.23
b) Diluted (in Rs.)	3.43	10.93	4.23

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
2. The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.
3. # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable.

For NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Name: Haryant Kumar Chaudhry
Designation: Director
DIN: 00021795
Date: 14/08/2019

SADHNA BROADCAST LIMITED
(CIN : L92100DL1994PLC059093)
Regd. Off. : 3rd 2nd Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj , New Delhi-110055
Email ID: cbnl.delhi@gmail.com, Website: www.sadhnabroadcast.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2019 (In Lakhs)

Particulars	Quarter ended (30/06/2019)	previous year ended (31/03/2019)	Corresponding 3 months ended in the previous year (30/06/2018)
1. Total Income from Operations	643.21	5,540.74	1,683.78
2. Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16.81	192.20	98.86
3. Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.81	192.20	98.86
4. Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	12.44	139.89	69.89
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	12.44	139.89	69.89
6. Equity Share Capital	1,002.65	1,002.65	1,002.65
7. Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.12	1.40	0.32
a) Basic (in Rs.)	0.12	1.40	0.32
b) Diluted (in Rs.)	0.12	1.40	0.32

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the company (www.sadhnabroadcast.com).
2. The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting standards (Ind AS) as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as specified in section 133 of the Companies Act, 2013

For SADHNA BROADCAST LIMITED
Sd/-
Name: Tajinder Kaur
Designation: Director
DIN : 06799570
Date: 14/08/2019

PASUPATI FINCAP LIMITED
Regd. Office : Village Kapriwas (Dharuhera) Distt. Rewari, Haryana
Head Office : 122-125, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065
STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2019
Rs. in Lacs except EPS

PARTICULARS	3 months ended 30-Jun-19	3 months ended 31-Mar-19	3 months ended 30-Jun-18	12 months ended 31-Mar-19
Total Income from operations (net)	1.27	-	-	1.27
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	-	(0.03)	(0.01)	0.15
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-	(0.03)	(0.01)	0.15
Equity Share Capital	470	470	470	470
Reserve including Revaluation Reserves as per Balance Sheet of discontinued year	-	-	-	(441.37)
Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (after exceptional items) (of Rs. 10 each) (not annualised)	-	-	-	-
a) Basic (in Rs.)	-	-	-	-
b) Diluted - Rs.	-	-	-	-

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange and listed entity.
2. The above results have been considered by the audit committee at its meeting held on 13th August 2019 and by the Board of Directors at its meeting held on 13th August 2019.

For Pasupati Fincap Ltd
Sd/-
Vidit Jain
Director
Place : Delhi
Date : 13.08.2019

PREM SOMANI FINANCIAL SERVICES LIMITED
Regd. Office: 42, Jai Jawan Colony, Scheme No. 3 Durgapura, Jaipur-302 018, Rajasthan.
CIN: L67120RJ1991PLC 006220 I Website: www.psfscs.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM/Meeting") of members of the company will be held on **Friday, 13.09.2019 at 11.00 A.M. at the Registered office of the Company at 42, Jai Jawan Colony, Scheme-III, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan** for the purpose of transacting the business as mentioned in the notice of the AGM dated 02.08.2019. In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant rules made thereunder the Annual Report of the Company for the year ended 31st March, 2019 along with Notice of the AGM as contained therein has been sent to the Members through electronic/permitted mode at their email addresses and postal addresses registered with the Company on Friday, 16.08.2019.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from **Saturday 07.09.2019 to Friday, 13.09.2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

Further, pursuant to Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Listing Regulations the company is providing e-voting facility to its shareholders to cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM. ("remote e-voting") using an e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) in respect of all business to be transacted at the AGM. Furthermore, shareholders are requested to take the note of the following:

a) The remote e-voting period will commence on **09.09.2019 at 10.00 A.M. and end on 12.09.2019 at 5.00 P.M.** and the remote e-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date i.e. 06.09.2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting by ballot at the AGM.
c) Investors who acquire shares of the Company and become members after the dispatch of the Notice of AGM and holds the shares as on the cut-off date i.e. 06.09.2019 are requested to send the written / email communication to the Company at limitedpsfs@gmail.com by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID to obtain the Login ID and Password for e-voting.
d) The Company shall also provide facility for voting by means of ballot papers at the AGM. The Members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote through remote e-voting may vote by using ballot paper.
e) The Shareholders, who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting, may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
f) The copy of the notice of AGM and Annual Report of the company for the year 2018-19 is available on the website of the company i.e. www.psfscs.co.in and also on NSDL website i.e. https://www.evoting.nsdl.com
g) For electronic voting instructions, shareholder may go through the instruction in the notice of AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or calling on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at voting@nsdl.co.in
h) Any grievances connected with facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Nawal Kumar Somani, Managing Director of the company at limitedpsfs@gmail.com or at 42, Jai Jawan Colony, Scheme-III, Durgapura, Jaipur-302018, Rajasthan or at 9829051268.

For Prem Somani Financial Services Limited
Sd/-
Nawal Kumar Somani
Managing Director
DIN: 08094850
Place: Jaipur
Date: 16.08.2019

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
शुद्धता का प्रतीक The name you can BANK upon!
ASSET RECOVERY MANAGEMENT BRANCH - FIRST FLOOR, RUCHINDRA BHAWAN RAJENDRA PLACE, NEW DELHI-110 008. (Ph: 011-2584313) NEW DELHI-110125 E-mail: bo4168@pnb.co.in

PUBLIC NOTICE

Account Names: M/s Vasari India (P) Ltd. & M/s Sundri Apparels (India) Pvt. Ltd.
& Shri. Suresh Chand Mohanani, Sh. Manoj Kumar Mohanani & Sh. Suresh Kumar Mohanani
Amount Outstanding- Rs 3422.01 lacs + intll & other charges after appropriation of credit if any w.e.f. 18.10.2010

It is hereby notified to public at large that M/s Vasari India (P) Ltd. & M/s Sundri Apparels (India) Pvt. Ltd. has availed loan to the tune of Rs 3300 lacs from the bank and due to default in repayment, the account has been declared as 'Willful Defaulter' by the Bank. The borrower is required to pay the Bank Rs. 3422.01 lac along with further interest thereon w. e. f. 18.10.2010 and other costs/monies for which bank has initiated recovery proceedings against him/her. In public interest, it is informed that having been declared as a Willful Defaulter by the Bank, the borrower is not entitled for financial assistance from any other Bank/Financial Institution.

Date: 16.08.2019; Place : New Delhi
BRANCH HEAD

SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD
CIN: L25192RJ2000PLC016480, Regd. Office: 4F-15, Oliver House, New Power House Road, Jodhpur (Rajasthan)
STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED JUNE 30th, 2019 (Rs. in Lakhs)

S. N.	Particulars	Quarter ended June 30, 2019	Year to date Figures ended June 30, 2019	Corresponding Quarter ended June 30, 2018
1.	Total Income from Operations	1453.17	1453.17	1414.56
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	29.78	29.78	42.75
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	29.78	29.78	42.75
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	23.87	23.87	21.11
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	25.03	25.03	22.30
6.	Equity Share Capital	1177.97	1177.97	1177.97
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	4029.81	4029.81	3941.54
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	0.20	0.20	0.18
	2. Diluted :	0.20	0.20	0.18

Note: The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchanges websites. www.bseindia.com, www.nseindia.com and company website www.sominvestor.com.
- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.
Om Prakash Bhansali
(Managing Director)

BIHAR SPONGE IRON LIMITED
CIN: L27106JH1982PLC001633
Registered Office: Umesh Nagar, Ghazipur, District Saranika Kharaswan, Jharkhand- 832401
Email: companyscretary@bsil.org.in / web: www.bsil.org.in

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2019 (Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED 31.03.2019 (Audited)
		Quarter ending on 30.06.2019 (Un-audited)	Quarter ending on 30.06.2018 (Un-audited)	
1	Total Income from Operations	174.58	192.70	864.97
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	20.48	10.36	119.65
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(2.68)	(3.98)	(10.87)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(2.68)	(3.98)	(10.87)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(2.68)	(3.98)	(10.87)
6	Equity Share Capital	902,054	902,054	902,054
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)			
a	Basic (in Rs.)	0.00	0.00	(0.01)
b	Diluted (in Rs.)	0.00	0.00	(0.01)

Note: The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter ended 30th June, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter ended on 30th June, 2019 is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.bsil.org.in.
The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.

For BIHAR SPONGE IRON LIMITED
Sd/-
U. K. MODI
(CHAIRMAN)
(DIN: 00002757)

Place: New Delhi
Date: 14th August, 2019

HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.
Nothern Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi – 67
Tel.: 011-41151111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

NOTICE

Whereas the Authorised Officer/s of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s)/ Loan Account No.	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property(ies)/Secured Asset(s)
1.	MR PRAVEEN KUMAR GOEL & MS. MONA GOYAL LOAN ACCOUNT NO. 623751443	Rs. 32,40,380/- (Rupees Thirty Two Lakh Forty Thousand Three Hundred and Eighty One Rupee) as on 31-JAN-19*	12-APR-19	13-AUG-19 (PHYSICAL)	FLAT-1001, 10th FLOOR, TOWER D, BLUE MOON HOMES, GH-58, RAJ NAGAR EXTENSION, NH-ZIABAD WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH.
2.	MR ATUL KUMAR LOAN ACCOUNT NO. 614793492	Rs. 15,38,504/- (Rupees Fifteen Lakh Thirty Eight Thousand Five Hundred and Four Only) as on 31-JAN-19*	12-APR-19	13-AUG-19 (PHYSICAL)	FLAT FUH-1228, 12th FLOOR, TOWER F, ADITYA URBAN HOMES, SHAHPUR BAHMETTA, NH-24, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH AND CONSTRUCTION THEREON IN PRESENT AND IN FUTURE
3.	MR NAVNEET MITTAL & MR PUNEET MITTAL LOAN ACCOUNT NO. 610539180	Rs. 21,96,478/- (Rupees Twenty One Lakh Ninety Six Thousand Four Hundred and Seventy Eight Only) as on 28-FEB-19*	25-MAR-19	13-AUG-19 (PHYSICAL)	FLAT/DCA-806, FLOOR-8, TYPE VI, TOWER D 8TH FLOOR, IN THE BUILDING CALLED CITY APARTMENTS SITUATED AT ADITYA URBAN CITY, GH-6 VILLAGE SHAHPUR BAHMETTA, NH-24 DISTRICT GHAZIABAD-201001 WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH HEAVING A SUPER AREA OF 924SQ. FT. ALLOTTED IN FAVOUR OF MR. NAVNEET MITTAL, S/O SH. SATISH MITTAL THROUGH P/O MR. PUNEET MITTAL, S/O SH. SATISH MITTAL. VIDE ALLOTMENT LETTER DATED 10.02.2014.
4.	MR VIVEK MALAVIYA LOAN ACCOUNT NO. 605316824	Rs. 17,15,941/- (Rupees Seventeen Lakh Fifteen Thousand Nine Hundred and Forty One Rupee) as on 28-FEB-19*	12-APR-19	13-AUG-19 (SYMBOLIC)	FLAT No. I-101, GROUND FLOOR, MIG, RAJ RETREAT PHASE II, VILLAGE BRAHPURA -BHOPURA, PARAGANA LONI, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH & CONSTRUCTION THEREON PRESENT & FUTURE
5.	MR VISHAL GUPTA & MS PINKI GUPTA LOAN ACCOUNT NO. 618213127	Rs. 19,21,875/- (Rupees Nineteen Lakh Twenty One Thousand Eight Hundred and Seventy Five Only) as on 31-OCT-18*	18-DEC-18	13-AUG-19 (SYMBOLIC)	FLAT No. 9G-3, UPPER GROUND FLOOR, PLOT NO. UG-4, LIG, SHALIMAR GARDEN EXTENSION - 1, SAHIBABAD, GHAZIABAD AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT & FUTURE

*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.
However, since the borrower/s mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrower/s / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC have taken **physical possession** of the immovable property (ies) / secured asset(s) described herein above as mentioned in serial no. 1, 2 & 3 and **symbolic possession** of the immovable property (ies) / secured asset(s) described herein above as mentioned in serial nos. 4 & 5 in exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 6 of the said Rules on the dates mentioned above.
The borrower(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd.
Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.
Copies of the Panchnama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is/are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.
Place: Delhi
Date: 14.08.2019
Regd Office: Ramon House, H.T.08 Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020
Authorised Officer

NOTICE is hereby given that the Share Certificates for Equity Shares with following details have been reported lost/stolen and that applications for issuance of duplicate share certificate(s) in respect thereof have been made to the Company at 360 Sultampur, M G Road, New Delhi-110030 Registrar and Share Transfer Agent of the company at T-34, Indl floor, Okhla Industrial Area, Phase-2, New Delhi-110023.

||
||
||